



NOVA
IRON & STEEL LTD.

CIN : L02710CT1989 PLC010052

F-Block, 1st Floor, International Trade Tower, Nehru Place,
New Delhi-110019 INDIA Tel.: +91-11-30451000 Fax: +91-11-23712737
Email : rai_nisl2007@yahoo.com, www.novaironsteel.com

BY ONLINE SUBMISSION

Ref. No.: NISL/SE/2019-20

Dated: 15/06/2020

The Secretary
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroz Jeejeebhoy Towers,
25th Floor, Dalal Street,
MUMBAI 400 001

Subject: Publication of Notice of Board of Directors Meeting

Dear Sir

In continuation to our earlier intimation dated 11/06/2020 regarding notice of Board Meeting, pursuant to regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the said Notice has been published in "Financial Express" an English National Daily and "Jansatta" a Hindi National and "Amrit Sandesh" a Regional Daily on 12/06/2020.


Copies of notice published in the Newspapers are enclosed for your record. This is for your information.

This is for your information.


Thanking You

Yours faithfully

For Nova Iron and Steel Limited


(Dheeraj Kumar)

Company Secretary



Encl.:a/a

JCK INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LIMITED
L70152KA1579PLC053526
Registered Office: No. 109, 1st Floor, West Westminster,
Cunningham Road, Bengaluru - 560 052
Email: investors@jckgroup.in Website: www.jckgroup.in

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Nation is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, 22nd June, 2020 at the registered office of the Company, to consider and approve the Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2020.

The said information is also available on the Company's website www.jckgroup.in and also on the website of Metropolitan Stock Exchange of India Ltd www.mse.in

For JCK INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LIMITED
Sd/-
Suhas CB
Company Secretary

Place: Bengaluru
Date: 12th June 2020

EBRICKASH WORLD MONEY LTD
RGA LIMITED
Orchestrating Business Future Limited

Regd Office: Plot Building, Ground Flr, Opposite Raja Ramanna Tech Park, Chembur Rd, Mumbai - 400051

Email: investors@ebrickash.com Website: www.ebrickash.com

NOTICE

NOTICE: Notice pertaining to the registration of the Company under section 12(2)(k) of the Companies Act, 2013 ("the Company") is herewith issued by the Board of Directors of the Company to the shareholders of the Company and the public, in accordance with the provisions of section 25(1) of the Companies Act, 2013 ("the Act"), in respect of the financial results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2020, for the year 2019-2020.

By virtue of the powers given to the Board of Directors of the Company under section 25(1) of the Act, the Board of Directors of the Company has decided to issue the financial results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2020, for the year 2019-2020.

The information contained in the Notice is also available on the website of the Company and also on the website of the Stock Exchanges where shares of the Company are listed or admitted to trading.

For EBRICKASH WORLD MONEY LTD
Orchestrating Business Future Limited

Place: Mumbai
Date: 11.06.2020
Signature: Sushma Katre
Company Secretary

TECPRO SYSTEMS LIMITED (UNDER LIQUIDATION)
PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION
FOR SALE OF OFFICES

E-AUCTION NOTICE

NOTICE: Pursuant to the Circular dated 16.05.2020, issued by the Hon'ble NCLT, Mumbai Branch vide order dated 10.01.2020, we are publishing a public notice for the E-Auction for the sale of following VEHICLES of TSL on ASIS WHEREAS AND AS IS WHAT IS BASIS".

S.No. Details of Asset Regn No Date/Fuel Type Reserve Price

1 Toyota Innova 2SG TN-07-BB-0996 16-07-20 Diesel Rs. 5 Lakh

2 BMW X5 TN-07-AP-5565 14-07-20 Diesel Rs. 10.25 Lakh

3 Honda City EX TN-07-BL-9530 10-07-20 Diesel Rs. 1.80 Lakh

4 Acura 2.2 TD TN-11-2-9494 28-Nov-12 Diesel Rs. 10.80 Lakh

5 Mercedes Benz E200 CDI TN-19-D-2198 13-Dec-10 Diesel Rs. 15.15 Lakh

6 Mahindra Xylo TN-07-BA-8135 14-May-08 Diesel Rs. 4 Lakh

Details for E-Auctions:

1. The E-Auction will be held on "AS IS WHERE IS BASIS AND AS IS WHAT IS BASIS".

2. The E-Auction will be held on 17th June 2020 09:00 AM to 07:00 PM.

3. Interested parties are requested to contact Mr. Ramachandran Subramanian, liquidator.tsl@gmail.com, (079)672 1417 / 66 102 762365, basis which certain formalities/requirements shall be duly taken care of.

4. Website URL and other terms and conditions for the E-Auction process will be made available to interested parties (in contact with the Liquidator) atleast 2 days prior to the E-Auction startdate.

Date: 12th June 2020

Place: CHENNAI!

Fusion Homes

2 BHK + 2D Laikhs Apartments Sector 56, Gurugram

Interest Subsidy upto 2.67 Lakhs Under PMAY

100% Approved by Government

Affordable Housing Scheme under AHP-2013 at Gurugram

Pyramid InfraTech Pvt. Ltd.

Office: B-205 2018 Kitab 12, PVR Atria

Plot No. 103, Sector 56, Gurugram, Haryana - 122001

Mobile: 98100 123456, 98100 123457

Landline: 0124 4567890, 0124 4567891

E-mail: customerservice@pyramidinfra.com

Website: www.pyramidinfra.com

Project Details

Location: Sector 56, Gurugram, Haryana

Project Area: 5.11875 Acres

No. Of Apartments: 738 (available units - 5)

No. Of Towers: 7

BASIC PRICE ON CARPET AREA - 7400/- per Sq.ft.

(Additional Balcony cost @ ₹500/- per Sq.Ft.)

Open Space, Lift, Two Wheeler Parking Space

One Community Hall and Dang Amangoldi - cum - Dine

APARTMENT DETAILS

1. Unit Type: 2 BHK + 2D Area: 1000 Sq.Ft. Carpet Area: 7400/- per Sq.Ft. Balcony: 100 Sq.Ft. Total Area: 1030 Sq.Ft. E-W: 10.20 Lacs

2. BHK A GS 101.15 100.00 24.16.00 10.20 Lacs

Application Timelines

1. Applications can be procured from Pyramid InfraTech Pvt. Ltd.

Corporate Office Address: 217-A & 217-B, 2nd Floor, SunCity Business Tower, Golf Course Road, Sector - 54, Gurugram,

Haryana, by paying an application fee of Rs. 1000/- Booking date

Starting from 12-04-2020.

Last Date of submission of Applications: 22-04-2020

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Drawing Room / Lobby / Bedroom / Toilet / Kitchen /

Balcony Flooring: Tiles / IPS - Drawing Room/ Lobby/Wall /

/ Bedroom/Wall/Ceiling Finish: Color/ Glass / Wall /

Wall Finish: Tiles upto 2 feet & GSB/ Color Wash in balance area - Kitchen/Wall Finish: Tiles upto 2 feet high above stove/ Sink counter & CBB/ Color wash in balance area -

Fixture & Fittings: Single bowl steel sink, CP/ PVC/ PFM/

Fittings, - Windows: Hardwood/ MS Z-section/ Filter/

Composite/ Aluminum, etc. - Door: Frame: Hardwood/ MS /

Fiber - Doors: Frame - Composite/ Fiber/ Aluminum/

Flush Doors, etc. - Chinaware: Standard Fittings -

Electrical: ISI marked products for wiring, switches & circuits - Security: Gated complex

Call Us today : + 91 9911971197

PYRAMID INFRASTRUCTURE PVT. LTD., I 217 A - 217 B, Second Floor, SunCity Business Tower, Sector-54, Golf Course Road, Gurugram.

Phone: +91-124-4224045, Email: customerservice@pyramidinfra.com, Web: www.pyramidinfra.com

IDFC Group sells entire stake in IDFC Securities for ₹86 cr

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, June 11

IDFC ON THURSDAY announced that it has divested its entire stake in its listed subsidiary IDFC Securities for ₹86 cr.

In August 2019, the group had informed about the divestment plans of subsidiary.

On June 10, IDFC, through its wholly owned subsidiary IDFC Financial Holding Company, completed the transaction for sale of its 100% equity stake held in IDFC Securities to Dharmesh Mehta along with other investors after obtaining all necessary regulatory approvals, it said in a regulatory filing.

Pursuant to the completion

of this transaction, the IDFC group does not hold any shareholding in IDFC Securities, the filing said, adding that Mehta does not belong to promoter/promoter group companies.

"Subsequent to the completion of this transaction, the IDFC group does not hold any shareholding in IDFC Securities, the filing said, adding that Mehta does not belong to promoter/promoter group companies.

Consumption of petroleum products dips 23% in May

FE BUREAU
New Delhi, June 11

DOMESTIC CONSUMPTION of petroleum products in May fell 12.3% year-on-year (y-o-y) to 14.7 million tonne (MT) on muted sales of transportation fuels amid the country-wide lockdown to contain the outbreak of the coronavirus. However, products consumed in the month was about 4.7% higher than April, reflecting higher usage with the gradual easing of travel restrictions.

According to provisional data by the government, petroleum planning and analysis cell (PPAC), consumption dipped 23% annually to 15.5 MT in April while fuel oil sales fell 11.3% to 1.8 MT in May. According to the aviation turbine fuel (ATF) data 34.9% to 1.1 thousand tonne in the month. Petrol sales fell 35% to 1.8 MT in May.

Consumption of bitumen, mostly used in road construction, dropped 21% y-o-y to 571 thousand tonne.

Domestic natural gas production fell 1.6% to 2,299 million metric standard cubic metre (MMSCm) in May. The 2.6 million tonne (MT) of crude oil produced in the country in the month was also 6.9% lower than the production from a year ago.

Domestic oil refineries' output has been falling with the ageing of existing fields and muted response from the industry to take up new projects, mainly due to lack of adequate incentives.

Rising consumption of products in

LPG was the only product which registered growth of 13% to 2.3 MT in May, mainly due to government scheme of free cylinder refills for poor households and higher domestic consumption of LPG cooking gas.

May is a positive development for the Union government, which has sharply increased auto fuel taxes by ₹10/litre on petrol and ₹11/litre on diesel in early May. In February, the Centre had also hiked taxes on both the fuel by ₹3/litre to shore up more revenues.

With the rising sales, state-run refiners Indian Oil Corporation (IOC) has ramped up capacity utilisation at its refineries from about 55% of rated capacity in the beginning of May, to about 78% by the month end, to the current level of 83%. Liquified petroleum gas (LPG) was the only product which registered growth of 13% to 2.3 MT in May, mainly due to government scheme of free cylinder refills for poor households and higher domestic consumption of LPG.

The requirement of furnace oil (FO) and low-sulphur heavy stock (LSHS) fuel — which are predominantly used in industrial applications — fell 7% to 4.79 thousand tonne.

CBI registers separate cases against 3 firms for defrauding PNB of over ₹125 crore

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, June 11

THE CBI on Thursday conducted searches at multiple locations in the country after registering three separate cases against two Nirupam-based companies and a Bhilai-based firm pertaining to loans taken in the Punjab National Bank totaling over ₹125 crore, officials said.

The agency has booked Nirupam-based Linkson Lipat and Energies' chairman-cum-managing director Yashwant Sangha, and Linkson International in which he is director, in two separate cases for allegedly forging documents and diverting ₹125 crore through diversion of loan funds and cheating them.

The case against Linkson International pertains to ₹62 crore, while that of Linkson Lipat and Energies to the tune of ₹125 crore.

In connection with these two cases, the CBI carried out searches at four locations in Nagpur

at the residential and official premises of the accused from where they fake recovered financial documents related to loan company's financial health, electronic evidence like hard-drives among others, officials said.

The bank has alleged that the companies trading in coal allegedly availed the facilities on the basis of forged documents and diverted the loan funds to companies having common directors.

The agency has booked Nirupam-based Linkson Lipat and Energies' chairman-cum-managing director Yashwant Sangha, and Linkson International in which he is director, in two separate cases for allegedly forging documents and diverting ₹125 crore through diversion of loan funds and cheating them.

In an unrelated case, the Central Bureau of Investigation (CBI) has booked Bhilai-based company Global Solutions - and its managing director Abinash Mohanty along with three other former and sitting directors, besides three senior PNB officials in a case of cheating the public sector bank of around ₹32 crore, the said.

SALE NOTICE

NAVARTIS INDIA LIMITED
DIRECTORIAL NOTICE

Pursuant to Regulation 36 read with Regulation 37 of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Act, 1992, the Board of Directors of Navartis India Limited, hereinafter referred to as "Navartis", do hereby give notice of the proposed sale of the shares of Navartis India Limited, to be held on Friday, 05.06.2020, 10:00 AM to the shareholders of Navartis India Limited, to be held on Friday, 05.06.2020, 10:00 AM.

E-AUCTION

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

20th July, 2020 at 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
(With minimum extension of 5 minutes each)

Date & Time of E-auction:

